



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 115] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 1, 2019/चैत्र 11, 1941  
No. 115] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 1, 2019/CHAITRA 11, 1941

भारतीय स्टेट बैंक

अधिसूचना

मुंबई, 1 अप्रैल, 2019

सं. ओआरजी/यूकेडी/2018-19/564 (ई) .— भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 50 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय स्टेट बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से तथा केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से भारतीय स्टेट बैंक साधारण विनियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टेट बैंक साधारण (संशोधन) विनियम, 2019 है।

(2) ये दिनांक 01 अप्रैल 2019 से प्रभावी होंगे।

2. भारतीय स्टेट बैंक साधारण विनियम, 1955 में विनियम 47 क के अधीन उप विनियम (1) में सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् -

\*सारणी

(1)	(2)	(3)
क्र. सं.	स्थानीय प्रधान कार्यालय	प्रादेशिक क्षेत्र
1	अहमदाबाद	गुजरात राज्य और दमण और दीव तथा दादर और नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र।
2	अमरावती	आंध्र प्रदेश राज्य और पुदुच्चेरी संघ राज्यक्षेत्र के अधीन यनम जिला।
3	बेंगलूरु	कर्णाटक राज्य।
4	भोपाल	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य।
5	भुवनेश्वर	ओडिशा राज्य।
6	चंडीगढ़	हरियाणा (फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत जिले को छोड़कर), हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पंजाब राज्य और चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र।
7	चेन्नई	तमिलनाडु राज्य तथा पुदुच्चेरी संघ राज्यक्षेत्र (माहे और यनम जिले को छोड़कर)।
8	गुवाहाटी	असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश राज्य।

9	हैदराबाद	तेलंगाना राज्य।
10	जयपुर	राजस्थान राज्य।
11	कोलकाता	पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य और अंदमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र।
12	लखनऊ	उप-विनियम (2) के खंड (क) में यथा विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य तथा पूर्वी क्षेत्र।
13	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य (मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिले को छोड़कर) और गोवा राज्य।
14	मुंबई (मेट्रो)	महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिले।
15	नई दिल्ली	उत्तराखंड राज्य, उप-विनियम (2) के खंड (ख) में यथा विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य के पश्चिमी क्षेत्र, हरियाणा राज्य के फरीदाबाद, गुरुग्राम तथा सोनीपत जिले तथा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली।
16	पटना	बिहार तथा झारखंड राज्य।
17	तिरुवनंतपुरम	केरल राज्य, लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र तथा पुदुच्चेरी संघ राज्यक्षेत्र के अधीन आने वाला माहे जिला।”

प्रशांत कुमार, उप प्रबंध निदेशक (मा. स) एवं कॉर्पोरेट विकास अधिकारी

[विज्ञापन- III/4/असा./01/19]

दिनांक : 14-03-2019

**टिप्पणी :-** भारतीय स्टेट बैंक साधारण विनियम, 1955 को पहली बार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 दिनांक 21 जून 1955 को अधिसूचना संख्या डी.बी.डी.1246/एस.बी.15-55 में प्रकाशित किया गया था और इसका पिछला संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, दिनांक 18 जुलाई 2017 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या बीओडी एण्ड जीओ/वीकेके/291 दिनांक 24 अप्रैल 2017 द्वारा किया गया था।

## STATE BANK OF INDIA

### NOTIFICATION

Mumbai, the 1st April, 2019

**No. ORG/UKD/2018-19/ 564 (E) .**—In exercise of the powers conferred by section 50 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Board of Directors of the State Bank of India, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, further to amend the State Bank of India General Regulations, 1955, namely:-

1. (1) These regulations may be called the State Bank of India General (Amendment) Regulations, 2019.

(2) They shall come into force with effect from the 1<sup>st</sup> day of April 2019.

2. In the State Bank of India General Regulations, 1955, in regulation 47A, in sub-regulation (1), for the Table, the following Table shall be substituted, namely:-

“TABLE

(1)	(2)	(3)
Sl. No.	Local Head Office	Territorial Areas
1.	Ahmedabad	The State of Gujarat and the Union territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli.
2.	Amaravati	The State of Andhra Pradesh and Yanam district under the Union territory of Puducherry.
3.	Bengaluru	The State of Karnataka.
4.	Bhopal	The State of Madhya Pradesh and Chattisgarh.
5.	Bhubaneshwar	The State of Odisha.

6.	Chandigarh	The States of Haryana (excluding the districts of Faridabad, Gurugram and Sonapat), Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Punjab and the Union territory of Chandigarh.
7.	Chennai	The State of Tamil Nadu and the Union territory of Puducherry (excluding districts of Mahe and Yanam).
8.	Guwahati	The States of Assam, Nagaland, Manipur, Meghalaya, Tripura, Mizoram and Arunachal Pradesh.
9.	Hyderabad	The State of Telangana.
10.	Jaipur	The State of Rajasthan.
11.	Kolkata	The States of West Bengal and Sikkim and the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands.
12.	Lucknow	The Central and Eastern Zones of the State of Uttar Pradesh as specified in clause (a) of sub-regulation (2).
13.	Maharashtra	The State of Maharashtra (excluding districts of Mumbai City, Mumbai Suburban, Thane, Palghar and Raigad) and the State of Goa.
14.	Mumbai (Metro)	The districts of Mumbai City, Mumbai Suburban, Thane, Palghar and Raigad in the State of Maharashtra.
15.	New Delhi	The State of Uttarakhand, the Western Zone of the State of Uttar Pradesh as specified in clause (b) of sub-regulation (2), the districts of Faridabad, Gurugram and Sonapat in the State of Haryana and the National Capital Territory of Delhi.
16.	Patna	The States of Bihar and Jharkhand.
17.	Thiruvananthapuram	The State of Kerala, the Union territory of Lakshadweep and Mahe district under the Union territory of Puducherry.”

PRASHANT KUMAR, Dy. Managing Director (HR) & Corporate Development Officer

[ADVT.-III/4/Exty./01/19]

Date: 14-03-2019

**NOTE:** — State Bank of India General Regulations, 1955 was first published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 21st June 1955 *vide* notification No. D.B.D.1246/S.B.15-55 and was lastly amended *vide* notification No. BOD & GO/VKK/291, dated the 24th April 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 18th July 2017.